



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 827]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2002/भाद्र 28, 1924

No. 827]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2002/BHADRA 28, 1924

श्रम मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2002

का.आ. 1017(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षता परिषद् नियम, 1962 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शिक्षता परिषद् का तुरन्त प्रभाव से पुनर्गठन करती है और केन्द्रीय श्रम मंत्री/श्रम राज्य मंत्री, को इसका अध्यक्ष, केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री/उप शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसका उपाध्यक्ष और निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

(क) पब्लिक सैक्टर स्थापनों के नियोजकों के प्रतिनिधि :—

- | | |
|---|--------|
| 1. कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 2. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 3. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 4. इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपोरेशन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 5. इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 6. भारतीय पर्यटन विकास कारपोरेशन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 7. स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 8. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 9. तमिलनाडु राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |

(ख) प्राइवेट सैक्टर स्थापनों में नियोजकों के प्रतिनिधि :—

- | | |
|--|--------|
| 1. कंकडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 2. कंकडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 3. अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | —सदस्य |

4. अखिल भारतीय नियोजक संगठन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
5. इंडियन होटल कम्पनी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
6. फेडरेशन ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
7. एम्प्लायर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
8. मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (एमआईसीओ), बेंगलूर द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
9. राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी) द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
(ग.) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :—	
1. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
2. योजना आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
3. अपर शिक्षता सलाहकार माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	—सदस्य
4. रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
5. कोयला और खान मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
6. रेल मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
7. उद्योग मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
8. भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	—सदस्य
9. सचिव, श्रम मंत्रालय	—सदस्य
10. अपर सचिव, श्रम मंत्रालय	—सदस्य
11. रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक/संयुक्त सचिव श्रम मंत्रालय	—सदस्य
12. निदेशक शिक्षता प्रशिक्षण, डीजीईटी, श्रम मंत्रालय	—सदस्य सचिव
(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि :—	
1. राज्य शिक्षता सलाहकार, आंध्र प्रदेश	—सदस्य
2. राज्य शिक्षता सलाहकार, असम	—सदस्य
3. राज्य शिक्षता सलाहकार, बिहार	—सदस्य
4. राज्य शिक्षता सलाहकार, गुजरात	—सदस्य
5. राज्य शिक्षता सलाहकार, हरियाणा	—सदस्य
6. राज्य शिक्षता सलाहकार, हिमाचल प्रदेश	—सदस्य
7. राज्य शिक्षता सलाहकार, मध्य प्रदेश	—सदस्य
8. राज्य शिक्षता सलाहकार, महाराष्ट्र	—सदस्य
9. राज्य शिक्षता सलाहकार, कर्नाटक	—सदस्य
10. राज्य शिक्षता सलाहकार, केरल	—सदस्य
11. राज्य शिक्षता सलाहकार, नागालैंड	—सदस्य
12. राज्य शिक्षता सलाहकार, उड़ीसा	—सदस्य
13. राज्य शिक्षता सलाहकार, पंजाब	—सदस्य
14. राज्य शिक्षता सलाहकार, राजस्थान	—सदस्य
15. राज्य शिक्षता सलाहकार, तमिलनाडु	—सदस्य
16. राज्य शिक्षता सलाहकार, उत्तर प्रदेश	—सदस्य
17. राज्य शिक्षता सलाहकार, पं. बंगाल	—सदस्य
18. राज्य शिक्षता सलाहकार, जम्मू-काश्मीर	—सदस्य
19. राज्य शिक्षता सलाहकार, गोआ	—सदस्य
20. राज्य शिक्षता सलाहकार, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली	—सदस्य
21. राज्य शिक्षता सलाहकार, त्रिपुरा	—सदस्य
22. राज्य शिक्षता सलाहकार, मेघालय	—सदस्य

(ङ) निम्नलिखित प्रतिनिधि उद्योग, श्रम और तकनीकी शिक्षा से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति :—

1. हिन्द मजदूर सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि —सदस्य
2. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि —सदस्य
3. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि —सदस्य
4. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि —सदस्य
5. भारतीय मजदूर संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि —सदस्य
6. श्री हरीश आहुजा, प्लॉट सं. 1, सैक्टर-28, फरीदाबाद, हरियाणा —सदस्य
7. श्री डी.एस. डागौर, बी.जे. 93, पूर्वी शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088 —सदस्य
8. श्री अशोक चौहान, ई-27, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 —सदस्य
9. श्री रुद्रसेन, सी-101, न्यू मुलतान नगर, नई दिल्ली —सदस्य

(च) अखिल भारतीय परिषद् और प्रादेशिक बोर्ड के प्रतिनिधि :—

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि —सदस्य
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि —सदस्य
3. निदेशक, शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर —सदस्य
4. निदेशक, शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई —सदस्य
5. निदेशक, शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता —सदस्य
6. निदेशक, शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई —सदस्य

[सं.फा. डीजीईटी- 8(1)/2002-एपी]

आशा मूर्ति, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2002

S.O. 1017(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 24 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) read with rules 3 and 4 of the Central Apprenticeship Council Rules, 1962, the Central Government hereby reconstitutes with immediate effect the Central Apprenticeship Council and appoints the Union Minister of Labour/Minister of State for Labour as Chairman, the Union Minister of State for Education/Deputy Minister for Education, Ministry of Human Resource Development as its Vice Chairman and the following persons as members, namely:-

A. Representatives of Employers in Establishments in the Public Sector:

1. Representative nominated by Coal India Limited Member
2. Representative nominated by Bharat Heavy Electricals Limited Member
3. Representative nominated by Steel Authority of India Limited Member

- | | | |
|----|---|-------------|
| 4. | Representative nominated by Indian Farmer Fertilizers Corporation | Member |
| 5. | Representative nominated by Indian Oil Corporation | Member |
| 6. | Representative nominated by Indian Airlines Limited | Member |
| 7. | Representative nominated by Standing Conference of Public Enterprises | Member |
| 8. | Representative nominated by Madhya Pradesh State Electricity Board | Member |
| 9. | Representative nominated by Tamil Nadu State Road Transport Corporation | Member |

B. Representatives of Employers in Establishments in the Private Sector:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Representative nominated by Confederation of Indian Industry | Member |
| 2. | Representative nominated by Confederation of Indian Industry | Member |
| 3. | Representative nominated by All India Manufacturers Organization | Member |
| 4. | Representative nominated by All India Organization of Employers | Member |
| 5. | Representative nominated by Indian Hotel Company Limited | Member |
| 6. | Representative nominated by Federation of Small Scale Industry | Member |
| 7. | Representative nominated by Employers Federation of India | Member |
| 8. | Representative nominated by Motor Industries Company (MICO) Limited, Bangalore | Member |
| 9. | Representative nominated by National Institute of Information Technology (NIIT) | Member |

C. Representatives of Central Government:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Representative nominated by Ministry of Communications & Information Technology | Member |
| 2. Representative nominated by Planning Commission | Member |
| 3. Additional Apprenticeship Adviser, Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development | Member |
| 4. Representative nominated by Ministry of Defence | Member |
| 5. Representative nominated by Ministry of Coal & Mines | Member |
| 6. Representative nominated by Ministry of Railways | Member |
| 7. Representative nominated by Ministry of Industry | Member |
| 8. Representative nominated by Ministry of Surface Transport | Member |
| 9. Secretary, Ministry of Labour | Member |
| 10. Additional Secretary, Ministry of Labour | Member |
| 11. Director General of Employment & Training/ Joint Secretary, Ministry of Labour | Member |
| 12. Director of Apprenticeship Training, DGET, Ministry of Labour | Member
Secretary |

D. Representatives of the States/Union territories:

- | | |
|---|-------------|
| 1. State Apprenticeship Advisor, Andhra Pradesh | Member |
| 2. State Apprenticeship Advisor, Assam | Member |
| 3. State Apprenticeship Advisor, Bihar | Member |
| 4. State Apprenticeship Advisor, Gujarat | Member |
| 5. State Apprenticeship Advisor, Haryana | Member |
| 6. State Apprenticeship Advisor, Himachal Pradesh | Member |
| 7. State Apprenticeship Advisor, Madhya Pradesh | Member |
| 8. State Apprenticeship Advisor, Maharashtra | Member |
| 9. State Apprenticeship Advisor, Karnataka | Member |
| 10. State Apprenticeship Advisor, Kerala | Member |
| 11. State Apprenticeship Advisor, Nagaland | Member |
| 12. State Apprenticeship Advisor, Orissa | Member |
| 13. State Apprenticeship Advisor, Punjab | Member |
| 14. State Apprenticeship Advisor, Rajasthan | Member |
| 15. State Apprenticeship Advisor, Tamil Nadu | Member |
| 16. State Apprenticeship Advisor, Uttar Pradesh | Member |

17. State Apprenticeship Advisor, West Bengal	Member
18. State Apprenticeship Advisor, Jammu and Kashmir	Member
19. State Apprenticeship Advisor, Goa	Member
20. State Apprenticeship Advisor, National Capital Territory of Delhi	Member
21. State Apprenticeship Advisor, Tripura	Member
22. State Apprenticeship Advisor, Meghalaya	Member

E. The following Representatives/Persons having special knowledge and experience on matters relating to Industry, Labour and Technical Education.

1. Representative nominated by Hind Mazdoor Sabha	Member
2. Representative nominated by Indian National Trade Union Congress	Member
3. Representative nominated by Centre of Indian Trade Union	Member
4. Representative nominated by All India Trade Union Congress	Member
5. Representative nominated by Bhartiya Mazdoor Sangh	Member
6. Shri Harish Ahuja Plot No. 1, Sector - 28, Faridabad, Haryana	Member
7. Shri D.S.Dagaur BJ-93, Poorvi, Shalimar Bagh, New Delhi - 110088	Member
8. Shri Ashok Chauhan E-27, Defence Colony New Delhi - 110024	Member

9. Shri Ruder Sen
C-101, New Multan Nagar
New Delhi Member

F. Representatives of the All India Council and Regional Boards.

1. Representative nominated by All India Council for Technical Education Member
2. Representative nominated by All India Council for Technical Education Member
3. Director, Board of Apprenticeship Training, Northern Region, Kanpur Member
4. Director, Board of Apprenticeship Training, Western Region, Mumbai Member
5. Director, Board of Practical Training, Eastern Region, Kolkata. Member
6. Director, Board of Apprenticeship Training, Southern Region, Chennai. Member

[F. No. DGET-8(1)/2002-AP]

ASHA MURTY, Director General/Jt. Secy.